



चालू खाते पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

औसत मासिक शेषराशि (AMB) क्या है?

औसत मासिक शेषराशि एक बैंक खाते में पूरे महीने के दौरान बनाए गए औसत समापन शेष को संदर्भित करती है।

औसत मासिक शेषराशि (AMB) की गणना कैसे की जाती है?

खाते की औसत मासिक शेषराशि (AMB) की गणना एक माह के प्रत्येक दिन की समापन शेषराशि को जोड़कर और उसे उस माह के कुल दिनों की संख्या से विभाजित करके की जाती है।

उदाहरण:

तिथि सीमा	कुल दिन	दिन के अंत में चालू खाते में राशि (रुपये में)	कुल राशि (रुपयों में)
1 अप्रैल से 10 अप्रैल	10	15000	150000
11 अप्रैल - 18 अप्रैल	8	10000	80000
19 अप्रैल - 25 अप्रैल	7	5000	35000
26 अप्रैल - 30 अप्रैल	5	25000	125000
कुल दिनों की संख्या	30	कुल राशि	390000

अप्रैल महीने के लिए औसत मासिक शेष होगा ₹3,90,000 / 30 = ₹13,000।

शिवालिक बैंक के करेंट अकाउंट के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता क्या है?

शिवालिक बैंक विभिन्न प्रकार के करेंट अकाउंट प्रदान करता है, जिनके लिए न्यूनतम बैलेंस आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं। जिस प्रकार के खाते में आप रुचि रखते हैं, उसके लिए विशिष्ट न्यूनतम बैलेंस जानने के लिए कृपया संबंधित जानकारी प्राप्त करें [click here](#)

शिवालिक बैंक के करेंट अकाउंट की विशेषताएँ क्या हैं?

शिवालिक बैंक के करेंट अकाउंट विशेष रूप से निर्बाध बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो कई लाभों के साथ आते हैं। डिजिटल सेवाओं के माध्यम से, आप किसी भी समय और कहीं भी तुरंत और सुरक्षित रूप से बिलों का भुगतान कर सकते हैं, बैलेंस जांच सकते हैं, धन हस्तांतरित कर सकते हैं या अपने बैंक खाता विवरण की समीक्षा कर सकते हैं। प्रत्येक करेंट अकाउंट वेरिएंट की विशिष्ट विशेषताओं को जानने के लिए संबंधित जानकारी प्राप्त करें [Click here](#)

मैं करेंट अकाउंट में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए लागू शुल्क कहाँ देख सकता हूँ?

विभिन्न प्रकार के करेंट अकाउंट में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए लागू शुल्क बैंक की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं और यह हमारी शाखाओं में भी प्रदर्शित किए गए हैं। शुल्क तालिका देखने के लिए कृपया संबंधित जानकारी प्राप्त करें [click here](#).